

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 26—अगस्त 1, 2014 (श्रावण 4, 1936)

No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 26—AUGUST 1, 2014 (SRAVANA 4, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(सरकारी और बैंक लेखा विभाग)

मुंबई, दिनांक 14 अक्टूबर 2013

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गए और भारत सरकार के राजपत्र सं. 228 में दिसंबर 01, 2007 को प्रकाशित सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 के विनियम 14 के अनुसार **सितंबर, 2013** को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची, खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्ट्या आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति, जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई 400 008 को सूचित करे।

सूची

ऋण का नाम	प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य रुपये / ग्राम	जिस व्यक्ति के नाम से जारी किया था	किस तिथि से ब्याज	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	कार्यालयीन आदेश की तिथि और संख्या
1.	2	3	4	5	6	7
6.75% सरकारी स्टॉक, 2007 (जीपी नोट)	बीवाई 006970	₹ 25,000/-	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	परिपक्वता की तारीख अर्थात् 22-नवम्बर 2007 तक ब्याज का भुगतान किया गया	गरवारे पेंट लिमि.स्टाफ प्रोविडेंट फंड	उमप्र(आईएस) का आदेश दिनांक 12-9-2013
-वहीं-	बीवाई 006971	₹15,000/-	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-वहीं-	-वहीं-	-वहीं-
-वहीं-	बीवाई 006972	₹ 25,000/-	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-वहीं-	-वहीं-	-वहीं-
-वहीं-	बीवाई 006973	₹10,000/-	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-वहीं-	-वहीं-	-वहीं-
-वहीं-	बीवाई 006974	₹ 5,000/-	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-वहीं-	-वहीं-	-वहीं-
-वहीं-	बीवाई 006975	₹ 25,000/-	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-वहीं-	-वहीं-	-वहीं-
-वहीं-	बीवाई 006976	₹ 25,000/-	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-वहीं-	-वहीं-	-वहीं-
-वहीं-	बीवाई 006977	₹ 25,000/-	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-वहीं-	-वहीं-	-वहीं-
-वहीं-	बीवाई 006978	₹ 25,000/-	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-वहीं-	-वहीं-	-वहीं-
-वहीं-	बीवाई 006979	₹ 20,000/-	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-वहीं-	-वहीं-	-वहीं-

श्रीकांत हमीने
प्रबंधक

मुंबई-400001, दिनांक 18 जून 2014

बैपविवि.सं.आइबीडी.20328 / 23.03.029 / 2013-14—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को सम्मिलित किए जाने का निदेश देता है:—

“दोहा बैंक क्यूएससी”

बी. महापात्रा
कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
(DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS)

MUMBAI, the 14th October 2013

In pursuance of Regulation 14 of the Government Securities Regulations, 2007 made by the Reserve Bank of India under Section 32 of the Government Securities Act, 2006 and published in the Gazette No. 228 of December 1, 2007 the following list of securities lost, etc., for the month of September 2013, in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just, is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately to the Chief General Manager in-Charge, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts (Central Debt Division), Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai - 400 008.

List

Nomenclature of the Loan	Security Number	Value in Rs./Grams	In whose name Issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6	7
6.75% Govt. Stock, 2007 (GP Note)	BY006970	₹ 25,000/-	Bank of Maharashtra	Interest paid up to date of maturity i.e.22-Nov-2007	Garware Paints Ltd. Staff Provident Fund	DGM(IS) order dated 12.09.2013
-do-	BY006971	₹ 15,000/-	Bank of Maharashtra	-do-	-do-	-do-
-do-	BY006972	₹ 25,000/-	Bank of Maharashtra	-do-	-do-	-do-
-do-	BY006973	₹ 10,000/-	Bank of Maharashtra	-do-	-do-	-do-
-do-	BY006974	₹ 5,000/-	Bank of Maharashtra	-do-	-do-	-do-
-do-	BY006975	₹ 25,000/-	Bank of Maharashtra	-do-	-do-	-do-
-do-	BY006976	₹ 25,000/-	Bank of Maharashtra	-do-	-do-	-do-
-do-	BY006977	₹ 25,000/-	Bank of Maharashtra	-do-	-do-	-do-
-do-	BY006978	₹ 25,000/-	Bank of Maharashtra	-do-	-do-	-do-
-do-	BY006979	₹ 20,000/-	Bank of Maharashtra	-do-	-do-	-do-

SHRIKANT HAMINE
Manager

Mumbai-400001, the 18th June 2014

DBOD.IBD.No. 20328/23.03.029/2013-14—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank namely :

“Doha Bank Qsc”

B. MAHAPATRA
Executive Director

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in